



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 269 राँची, शुक्रवार,

16 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2017 ई०।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014 (खण्ड-I)-2126-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि साहेबगंज जिला में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरुद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12 (01) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के साहेबगंज जिला के उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12 (02) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्योयोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,

सरकार के उप सचिव।